

## तेल व मिल्क पाउडर से बना 300 किलो नकली पनीर पकड़ा, 5 हजार लोगों की सेहत बिगाड़ सकता था यह

Hindi News

Local

Rajasthan

Kota

Kota News rajasthan news 300 kg of paneer made of oil and milk powder caught it could spoil the health of 5 thousand people  
Feb 19, 2019, 04:55 AM IST



सिटी रिपोर्टर |कोटा

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को मप्र से कोटा में सप्लाई किए जा रहे मिलावटी पनीर के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। बारां रोड स्थित एक डेयरी से 300 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया। प्रारंभिक तौर पर बदबू आने व घटिया होने की आशंका पर इसे नष्ट करा दिया गया। इससे पहले दो सैंपल लिए गए, जिनकी खाद्य सुरक्षा लैब में जांच कराई जाएगी। यह पनीर मंगलवार को कोटा में ही अलग-अलग शादियों में सप्लाई होना था। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह पनीर 5 हजार से ज्यादा लोगों को बीमार करने के लिए काफी था।

पिछले कुछ समय में प्रदेश में कई जगह इस तरह का पनीर मिला तो कोटा में मौजूद इन अधिकारियों के भी कान खड़े हुए। मुखबिर लगाए गए तो सूचना मिली कि मध्यप्रदेश से घटिया व मिलावटी पनीर की खेप आ रही है। इसके बाद बारां रोड सरस्वती कॉलोनी स्थित अग्रवाल डेयरी की रैकी कराई गई। पता चला कि डेयरी में सोमवार को ही बड़ी खेप आई है। दोपहर बाद टीम यहां पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। 4 कार्टन में 50-50 किलो और 100 किलो पनीर फ्रीजर में रखा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) गोविंद सिंह गुर्जर, अरुण सक्सेना, संजय सिंह व चंद्रवीर सिंह जादौन की टीम ने यह कार्रवाई की।

**मार्केट में पनीर का रेट 300 रुपए किलो 200 रु. में बेचकर भी कमाता था Rs.30 मुनाफा**

एफएसओ ने बताया कि इस दुकान का मालिक अनूप गुप्ता है, जो मूलतः मध्यप्रदेश के श्योपुर का ही रहने वाला है। उसने कोटा में करीब एक माह पहले ही यह कारोबार शुरू किया है।

पूछताछ में उसने बताया कि यह पनीर श्योपुर से ही मंगवाया था। पनीर 170 रुपए किलो की दर से खरीदा और 200 रुपए किलो की दर से बेचा जाता है। इतनी कम रेट बताने पर एफएसओ का शक और ज्यादा पुख्ता हो गया, क्योंकि बाजार में अच्छी क्वालिटी का पनीर कम से कम 250 से 300 रुपए किलो में बिकता है। उस पर थोक में भी ज्यादा बचत नहीं होती, जबकि इस पर दुकानदार एक किलो पर ही 30 रुपए बचा रहा था। शादियों के सीजन में पनीर की खासी मांग रहती है।

प्रारंभिक पड़ताल के बाद पाया गया कि उक्त पनीर रिफाइंड तेल और मिल्क पाउडर से बनाया गया है। यानी उसमें पनीर नाम का कोई कंटेंट है ही नहीं। ऐसे में यह निश्चित तौर पर लोगों की सेहत खराब करता।

कार्रवाई के दौरान ही दुकानदार अनूप की तबीयत बिगड़ गई। ब्लडप्रेसर बढ़ने के बाद कार्रवाई कर रही टीम ने उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए एमबीएस अस्पताल भेज दिया। पहले उसे हस्ताक्षर समेत अन्य औपचारिकताओं के लिए रोका हुआ था।

**इन आसान टिप्स से पहचानें नकली पनीर**

**भास्कर इन्वेस्टिगेशन**

**आठ साल में 452 मामलों में चालान, एक में भी सजा नहीं**

मिलावटखोरों पर सख्ती के लिए भारत सरकार की ओर से 8 साल पहले नया और कड़ा कानून तो लागू कर दिया गया, लेकिन यह एक्ट लागू होने से अब तक कोटा जिले में एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई।

**एक्सपर्ट**

**डॉ. अनिल शर्मा**

**एचओडी, गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी**

Source: <https://www.bhaskar.com/rajasthan/kota/news/rajasthan-news-300-kg-of-paneer-made-of-oil-and-milk-powder-caught-it-could-spoil-the-health-of-5-thousand-people-045540-3938406.html>